

## नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट स्कीम

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में [प्रधानमंत्री](#) की अध्यक्षता में [केंद्रीय मंत्रिमंडल](#) ने [केंद्रीय योजना](#) "नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट स्कीम (NFIES)" के लिये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

### नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट स्कीम क्या है?

- **परिचय:**
  - इस योजना का उद्देश्य 28 राज्यों और सभी केंद्रशासित प्रदेशों में [राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय](#) की ऑफ-कैंपस प्रयोगशालाएँ स्थापित करके समग्र देश में [फॉरेंसिक बुनियादी ढाँचे](#) को सुदृढ़ करना है।
- **परिचय और अवधि:**
  - इस योजना का वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 की अवधि के दौरान कुल वित्तीय परिव्यय 2,254.43 करोड़ रुपए है।
- **संरचना:**
  - देश में [राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय \(NFSU\)](#) के परिसरों की स्थापना।
  - देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
  - NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढाँचे में बढोतरी।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करना, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की क्षमता और योग्यता को सुदृढ़ करना है।
  - समग्र देश में नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का उद्देश्य मौजूदा फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में **मामलों का बोझ और लंबित मामलों की संख्या को कम करना** है।
    - [नए आपराधिक कानूनों](#) के अधिनियम के तहत 7 वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिये फॉरेंसिक जाँच को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
  - यह योजना प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति का लाभ उठाते हुए और अपराध के उभरते हुए स्वरूप तथा तरीकों को देखते हुए **एककुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया** में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों के महत्त्व को रेखांकित करती है।
  - इस योजना का उद्देश्य सरकार के 90 प्रतिशत से अधिक की उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करने के लक्ष्य का समर्थन करना है।

### भारत में नई आपराधिक विधि

- भारत में नई आपराधिक विधि 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। ये विधि मौजूदा औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेगी।
  - [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) को [भारतीय न्याय संहिता \(BNS\)](#) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - [दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#) को [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता \(BNSS\)](#) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - [भारतीय साक्ष्य अधिनियम](#) को [भारतीय साक्ष्य अधिनियम \(BSA\)](#) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

### राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)

- यह फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2009 में [गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय](#) के रूप में की गई थी और बाद में वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर NFSU कर दिया गया।
- विश्वविद्यालय की स्थापना फॉरेंसिक विज्ञान में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिये की गई थी और अब यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत [राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान](#) है।
- इसका मुख्य परिसर गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।

### फॉरेंसिक विज्ञान

- फोरेंसिक विज्ञान अपराधों की जाँच करने या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य की जाँच करने के लिये वैज्ञानिक तरीकों या विशेषज्ञता का उपयोग है।
- इसमें **फगिरप्रिंट** और **DNA विश्लेषण** से लेकर **नृवज्ज्ञान** तथा **वन्यजीव फोरेंसिक** तक विविध विषय शामिल हैं।
- यह **आपराधिक न्याय प्रणाली** का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
  - फोरेंसिक वैज्ञानिक अपराध स्थलों और अन्य स्थानों से साक्ष्यों की जाँच तथा विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ नष्कर्ष निकालते हैं, जिससे अपराध के अपराधियों की जाँच एवं अभियोजन में सहायता मिल सकती है या किसी निर्दोष व्यक्तियों को संदेह से मुक्त किया जा सकता है।

और पढ़ें: [आपराधिक न्याय प्रणाली](#), [राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. किसी व्यक्तिके जीवमतीय पहचान हेतु, अंगुली-छाप क्रमवीक्षण के अलावा, नमिनलखिति में से कौन-सा/से प्रयोग में लाया जा सकता है/लाए जा सकते हैं? (2014)

1. परतारिका क्रमवीक्षण
2. दृष्टपिटल क्रमवीक्षण
3. वाक् अभज्ज्ञान

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)